

इसे वेबसाईट [www.govtppressmp.nic.in](http://www.govtppressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 सितम्बर 2011— आश्वन 1, शक 1933

## भाग २

### स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं